

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महराजगंज-दिनांक- फरवरी 16,2021

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 177 वाहनों का चालान, 06 वाहनों से कुल 3100/-रूपया शमन शुल्क वसूल किया गया शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 15 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए 290 भा0द0वि0 मे 15 व धारा 110 जी जा0फौ0 में 08 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।

अबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त विजय प्रताप पुत्र मुखल नि0 चन्द्रागुलभार थाना निचलौल जनपद महराजगंज के कब्जे से 15 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 68/21 धारा- 60/63 अबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1.श्रीराम पुत्र मुराली नि0 पोखरभिण्डा थाना कोतवाली जनपद महराजगंज के कब्जे से 10 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 86/21 धारा- 60(1) अबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

2.सुगन पुत्र हुडाटे नि0 बरगदवा राजा थाना कोतवाली जनपद महराजगंज के कब्जे से 10 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 87/21 धारा- 60(1) अबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना नौतनवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त इंदल प्रसाद पुत्र मेवा प्रसाद नि0 बडहरा थाना बरगदवा जनपद महराजगंज के कब्जे से 01अदद साईकिल व 144 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 35/21 धारा- 60/63 अबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

आर्म्स अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना कोल्हुई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1. राहुल महतो पुत्र राजू नि0 महराजपुर थाना तालझारी जनपद साहेबगंज झारखण्ड के कब्जे से 01अदद कट्टा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 27/21 धारा- 03/25 आर्म्स अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

2. बडेरी महतो पुत्र प्रसाद नि0 महराजपुर थाना तालझारी जनपद साहेबगंज झारखण्ड के कब्जे से 01अदद नाजायद चाकू बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 28/21 धारा- 04/25 आर्म्स अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना ठूठीबारी पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त दीपू पुत्र गणेश नि0 कडजा थाना ठूठीबारी जनपद महराजगंज के कब्जे से 01अदद नाजायद चाकू बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 23/21 धारा- 04/25 आर्म्स अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

379/411/413/414/420 ipc अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना श्यामदेउरवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1. कृष्ण कुमार उर्फ लल्ले पुत्र जवाहिर निषाद नि0 महुआ महुई थाना श्यामदेउरवा जनपद महाराजगंज 2. कन्हैया पुत्र राजकुमार साहनी नि0 औरही थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर के द्वारा चोरी की मोटरसाईकिल को छिपाकर नम्बर प्लेट बदलकर बेचने हेतु नेपाल ले जाना व 01 अदद चोरी की मोटरसाईकिल नम्बर यूपी 56 एए 6839 नम्बर बदला हुआ बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 35/21 धारा-379/411/413/414/420 ipc अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-07 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया ।

जनपद में 15/16-2-2021 को विभिन्न अपराधों में कुल- 24 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी ।